

चिदंबरम के बचाव में उतरीं प्रियंका गांधी

By : Editor Published On : 21 Aug, 2019 12:00 PM IST



नई दिल्ली : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के बचाव में उतर आई हैं। प्रियंका ने सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा चिदंबरम ने पूरी ईमानदारी से देश की सेवा की है। प्रियंका ने कहा, "सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, अंजाम जो भी हो। चिदंबरम सरकार की विफलता पर खुलकर बोलते हैं।"

इससे पहले, सीबीआई की टीम सुबह-सुबह एक बार फिर से चिदंबरम के घर पर पहुंची लेकिन खाली हाथ लौट आई। कल देर रात भी सीबीआई की टीम ने उनके घर पर दबिश दी थी लेकिन वह वहां पर नहीं मिले थे। चिदंबरम का मोबाइल फोन भी बंद है।

चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। वह इससे बचने की जुगत में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस बीच, देर रात सीबीआई और ईडी के अधिकारियों की टीम चिदंबरम के घर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिले। सीबीआई ने रात 11 बजे उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया और दो घंटे में पेश होने का आदेश दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई होगी।

चिदंबरम के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने कहा, "मेरे क्लाइंट (चिदंबरम) अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने 20 अगस्त को अग्रिम जमानत खारिज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और तत्काल राहत दिए जाने की मांग की है।"

क्या है मामला

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था। ED के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी। वहीं INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है। PLC.

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/चिदंबरम-के-बचाव-में-उतरीं/>

INTERNATIONAL NEWS AND VIEW CORPORATION



अंतरराष्ट्रीय समाचार एवं विचार निगम

12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.

www.internationalnewsandviews.com